

प्रेस विज्ञप्ति / प्रकाशनार्थ

16 दिसम्बर 2020 गोरखपुर

आज विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा एक बृहद रक्त दान शिविर का आयोजन, सरस्वती विद्या मंदिर देवरिया खास, देवरिया में किया गया

इस अवसर पर गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल ने 1971 के युद्ध के नायको और शहीदो को नमन करते हुए कहा की.....

**“हैं नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय...”**

आज विजय दिवस है यानी अपराजेय भारतीय शौर्य के वैश्विक जयघोष की स्मरण-पर्व ! आतातायी अहंकार के मान मर्दन का यह दिवस सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है ! आज का सारा उल्लास माँ भारती के उन सभी लाइलों को समर्पित है जिनकी शौर्य-साधना के बदौलत आज हम आप गर्वित भारतीयता का यह जश्न मना पा रहे हैं।

### **1971 का भारत पाक युद्ध**

उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक समय था जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना, यह युद्ध 13 दिनों तक चला उसके बाद 93, 000 पाकिस्तानी सेना तथा उनके अधिकारियों ने बिना शर्त आत्म समर्पण किया। यह भी एक इतिहास रचा गया था की इतने अल्प काल के युद्ध में इतनी बड़ी सेना का आत्म समर्पण केवल भारत जैसे महान देश द्वारा ही सम्भव है । तब से इस दिन को भारत और बांग्लादेश के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

डॉ अग्रवाल ने आगे बताया की आज इस अवसर पर रक्त दान का पुण्य कार्य अति सराहनीय है,रक्तदान जीवन प्रदान करने वाली गतिबिधि है. इसीलिए रक्तदान को महादान माना जाता है रक्त की हर एक बूँद का कतरा किसी ना किसी के जीवन का स्रोत है,स्वरक्तदाताओं द्वारा किया गया रक्त दान से अनगिनत मरीजों को जीवन दान मिलता है।

सभी रक्त दाताओ का चिकित्सय परीक्षण के साथ ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन इत्यादि जाँच किया गया

इस अवसर पर अरविंद मिश्रा, प्रभाकर मणि त्रिपाठी, संगीता तिवारी, राधा रमन मिश्रा, सुधाकर त्रिपाठी, मदन कुमार, शिवम तिवारी के साथ बड़ी संख्या मे लोगो ने रक्त दान किया

वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जैसे मास्क, सेनेटाइजर का प्रयोग, ब्लड बैंक की टीम द्वारा PPE किट का प्रयोग तथा आपस मे दूरी बनाये रखे हुए ,इस रक्त दान शिविर को कराया गया।

जय हिन्द जय भारत